

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 429]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अक्टूबर 2015—कार्तिक 1, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

क्र. बी-11-03-2015-चौदह-2.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक बी-11-03-2015-चौदह-2, दिनांक 30 सितम्बर 2015 द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम खरीफ 2015 हेतु पटवारी हल्का स्तर की विदिशा जिले की संशोधित अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें पुनः जिला विदिशा की संलग्न सूची अनुसार उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है. मौसम खरीफ वर्ष 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मौसम खरीफ 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2015-2016	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची:—						
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
विदिशा	कुरवाई	कुरवाई-1	34	सीहोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-